Ph.: 011 4235 1486



#### FRANKLIN LEASING AND FINANCE LIMITED

Unit/Shop No. 205, Second Floor, Aggarwal City Mall Road No. 44, Pitampura, Delhi - 110 034 E-mail: franklinleasingfinance@gmail.com, Website: www.franklinleasing.in CIN No. U74899DL1992PLC048028

Date: 01st September, 2022

To,
The Bombay Stock Exchange Limited
Corporate Relationship Dept,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

Subject: Compliance under Regulation 47 of the Securities and exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Ref. BSE Scrip Code: 539839

#### Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of Notice of Annual General Meeting of the company for the financial year 2021-22 published in the following newspapers on **01**<sup>th</sup> **September**, **2022**.

- 1. Financial Express English Newspaper
- 2. Jansata Hindi Newspaper

Please take the same on your record and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You. Yours Faithfully,

For Franklin Leasing & Finance Limited

Rashmi Bhagat Company Secretary

Membership No. 54366

#### Oswal Agro Mills Limited CIN: L15319PB1979PLC012267

Registered Office: Near Jain Colony, Vijay Inder Nagar, Daba Road, Ludhiana-141003 (Punjab)

INFORMATION REGARDING 42" ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS

NOTICE is hereby given that the 42™ Annual General Meeting ("AGM") of Oswal Agro Mills Limited ("the Company")is scheduled to be held on Wednesday, September 28, 2022 at 03.00P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. In view of continuing pandemic, social distancing is a pre-requisite that needs to be followed. Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide circular Nos 02/2022,02/2021, 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated May 5 2022, January 13, 2021, April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively (MCA Circulars) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide circular No. SEBI/HO/CFD /CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 13, 2022 January 15, 2021 and May 12, 2020 respectively (SEBI Circulars) have permitted the holding of AGM through VC/OAVM.

In compliance with the aforesaid circulars and the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 42" AGM of the Company is scheduled to be held through VC/OAVM.

In accordance with the aforesaid circulars, electronic copies of the Notice of AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 will be sent only through email to those Members whose email addresses are registered with the Company or the Depositories/ Depository Participant (s) Members may please note that these documents will also be available on the Company's website (www.oswalagromills.com), Stock Exchange website -BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and the website of NSDL (Agency for providing e-voting facility) at www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM shall be provided in the notice of the AGM.

The Company is providing remote e-voting facility ("Remote evoting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ evoting shall be provided in the Notice of the AGM.

Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on cut-off date i.e., Wednesday, September 21, 2022 may cast their vote electronically on the Businesses, as set out in the Notice of the 42<sup>™</sup> AGM through electronic voting system ("remote e-voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL"). All the members are

- The businesses, as set out in the Notice of the 42<sup>™</sup> AGM, will be transacted through voting by electronic means:
- The remote e-voting will commence on Sunday, September 25, 2022 at 09:00 A.M. (IST) and will end on Tuesday, September 27, 2022 at 05:00 P.M. (IST).

iii) The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through the e-voting system during the 42" AGM, is September 21, 2022.

iv) Any person, who becomes member of the company after sending the Notice of the 42" AGM by email and holding shares as on the cut -off date i.e., September 21, 2022, may obtain the login ID and password by following the instructions as mentioned in the notice of 42" AGM or sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing user id and password to cast their vote.

Members may note that : a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on resolution is cast by the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 42<sup>nd</sup> AGM may participate in the 42" AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during the 42" AGM, c) the members participating in the 42° AGM and who had not cast their vote by remote e-voting. shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the 42" AGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the 42nd AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the

The login credentials for casting votes through remote e-voting/ e-voting shall be made available to the Members through email Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/ Depository Participant(s) may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of the AGM. The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Manner of registering / updating email addresses: (a) Members holding shares in physical mode, who don't

have registered/updated their email addresses with the Company, are requested to send the scanned copy of the following documents by email to the Company at cs@oswalagromills.com:

 A signed request letter mentioned their name, folio no. share certificate number, complete address, email id and mobile number; and

(ii) Scanned copy of Self-attested PAN card.

(b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/ updated their email id with Depository Participant(s), are requested to register/update their email id with their relevant Depository Participant(s).

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 22, 2022 to Wednesday, September 28, 2022 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the Members, if any.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM including the instructions for attending the AGM, manner of casting vote through remote e-voting/e-voting during the AGM. Please write to the secretarial department of the Company at cs@oswalagromills.com in respect of queries regarding aforesaid. For Oswal Agro Mills Limited

Place: New Delhi

Date: August 31, 2022

Anjali Aggarwal Company Secretary

# "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

#### DR. M. INDUSCORP LIMITED

Regd. Office: 188/1, Ground Floor, Dev Nagar, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, Tel.: +91-11-28716806 CIN: L01119DL1986PLC023698 Website: www.drminduscorp.com; Email: drmsoy@gmail.com

The 36th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, 27.09.2022 at 11:00 A.M. at 18B/1; Ground Floor, D.B. Gupta Road, Dev Nagar, Karol Bagh, Delhi-

110005, to transact the business as set out in the notice of the meeting dated 31.08.2022 The Notice along with the Annual Report for the year 2021-22, will be sent by electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) on 31.08.2022. The notice of Annual General Meeting can be viewed/ downloaded from the CDSI

website www.evotingindia.com. Physical copy of the same is available for inspection. during 10:00 A.M. to 12:00 Noon at the registered office of the company Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEB

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the register of members and share transfer books of the Company shall remain closed from 23.09.2022 to 27.09.2022 (both days inclusive), for the said Annual Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule

20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulations 44 of the Listing Regulation, the Company is pleased to provide e-voting facility by Central Depository Services Limited (CDSL) to its members in respect of the business(es to be transacted at the Annual General Meeting

The e-voting facility will be available from 24.09,2022, 09:00 A.M. to 26.09.2022, 06:00 P.M. after which e-voting shall not be allowed.

dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date, may obtain the

ogin ID and password by sending a request at helpdesk evoting@odslindia.com. However

The out-off date for determining the eligibility to vote through electronic means or at Any person, who acquire shares of the company and become member of company after

if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. Facility for voting through polling paper shall be available at the AGM. Members who have already cast their vote through remote e-voting prior to AGM may also attend the

AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM. In case of any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently

Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members, available at www.evotingindia.com or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com. o contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager at CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013, or at 1800-22-5533 or registered office address of the Company.

For Dr. M. Induscorp Limited Prem Prakash

Managing Director

#### VAM HOLDINGS LIMITED

Place: New Delhi

Date: 31.08.2022

(CIN: U51909UP1996PLC057371) Registered Office: Plot No. 1A, Sector - 16 A, Noida-201 301 (U.P.) E-mail: corporate.enpro@jepl.com, Phone: 0120-4361000 NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

This is in continuation to our earlier communication dated August, 26, 2022, whereby Members of VAM Holdings Limited ("Company") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules amed there under read with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the Board of Directors decided to convene the 25" Annual General Meeting ("AGM") of the Company on Wednesday, September 28, 2022 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of 25th AGM The Notice of 25th AGM and Annual Report of the Company for the financial year anded March 31, 2022 along with login details for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting has been sent on Tuesday, August 30, 2022 through e-mail to all those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and through rysical mode to those members whose email addresses are not registered wi the Company/Depository Participants. The Notice of 25th AGM is also available at CDSL website www.evotingindia.com.

n compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and MCA Circulars, the Members will be provided with the facility to cast their vote electronically through the remote e-voting facility (prior to AGM) and e-voting facility (during the AGM) on all he resolutions set forth in the 25" AGM Notice. The facility of casting votes will be provided by CDSL. The remote e-voting shall commence on Saturday, September 24, 2022 (9.00 A.M. IST) and end on Tuesday, September 27, 2022 (5.00 P.M. IST) During this period, Members may cast their vote electronically. Thereafter, the emote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM. Once the Member cast vote on a resolution, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM is provided in the Notice of the 25th AGM

a person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Thursday, September 22, 2022 i.e. Cut-off date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote e-voting and e-voting facility during the AGM. A person who ceases to be a Member as on Cut-off date should treat this Notice for information purposes only Any person, who acquire shares and become Member of the Company after the date of dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the Cut-off date may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned n the Notice of AGM or sending a request at info@alankit.com. However, if he she is already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can use his her existing User ID and password to cast their vote.

you have not registered your e-mail address with the Company/DP, you may please follow the below instructions for obtaining login details for e-voting:

Please send a request to Alankit Assignments Limited, Registrar and Share Transfer Agent at rta@alankit.com, providing your name, folio number, scanned copy of the share certificate (front and back) self-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport Utility Bill or any other Government document in support of the address proof of the Member(s) as registered with the Company for registering the e-mail address and for obtaining login details for e-voting with a CC to corporate.enpro@jepl.com

Please contact your DP and register your e-mail address in your demat account, as per the process advised by your DP.

The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on Thursday, September 22

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or to any other person authorized by him after the completion of the scrutiny of the e-voting (votes casted through e-Voting at the AGM and through remote e-voting), not late than 48 hours from the conclusion of the AGM. The result declared along with the Scrutinizer report shall be placed on the website of CDSL

If you have any query relating to e-voting facility, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the help section at www.evotingindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542/43 of CDSL or send a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any grievance connected with e-voting facility, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A. Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai 400 013 Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Tel: 022-23058738.

> By order of the Board For VAM Holdings Limited

Place: Noida

DIN- 00009338

Date: September 01, 2022

Takesh Mathur Director

Place: Mumbai

Date: 31.08.2022

### SAYAJI HOTELS LIMITED

CIN: L51100TN1982PLC124332 Regd. Office: F1 C2 Sivavel Apartment, 2, Alagappa Nagar,

Zamin Pallavaram, Chennai-600 117 (Tamil Nadu) Phone: 044-29871174 Email: cs@sayajigroup.com, Website: www.sayajihotels.com

### Information Regarding 39<sup>™</sup> Annual General Meeting

The Thirty Ninth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Tuesday, 27" September, 2022 at 3:30 p.m. IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice Calling the AGM

The Notice of the AGM and the standalone and consolidated audited financial statements for the financial year 2021-22, along with Board Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereof, will be sent to the members of the Company, electronically, whose e-mail address is registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice of AGM and the aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.sayajihotels.com and on the website of BSE Limited ("BSE") www.bseindia.com.

Manner of registering / updating e-mail address:

(a) Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at cs@sayajigroup.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of the PAN Card, and self-attested copy of any document (eg.: Aadhaar, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member.

(b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their e-mail address, are requested to register/ update the same with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts.

### Manner of casting vote(s) through e-voting:

Place : Chennai

Date: 01.09.2022

Members can cast their vote(s) on the businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting, including voting remotely ("remote e-voting") by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their e-mail address has been provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically during the AGM.

> By the order of Board Sd/-

Company Secretary and Compliance Officer ACS: 57859

Ankur Bindal

## CHEMCRUX ENTERPRISES LIMITED

Regd. Off.: 330, TRIVIA Complex, Natubhai Circle, Racecourse, Vadodara-390007 Email: girishshah@chemcrux.com Ph.: 0265-2984803/2988903 Website: www.chemcrux.com (CIN: L01110GJ1996PLC029329)

## NOTICE OF 26" ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Twenty Sixth (26th) Annual General Meeting of Members of CHEMCRUX ENTERPRISES LIMITED (Company) will be held on Friday 23rd September 2022 at 02:00 P.M. (IST), Pursuant to Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020,02/2021 and 02/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 and May 5, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the AGM is being held through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility being provided by National Securities Depositories Limited (NSDL), to transact the business as set out in the notice of AGM. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the

January 15, 2021 and May 13, 2022 members may kindly note that the AGM Notice and Annual Report for the year ended 31st March, 2022was sent on 31st August 2022 electronically, only to such members whose Email Id is registered with the Company Company's RTA / Depositories / DPs. Those members who have not registered their E-mail Id may kindly register with their DPs or RTA Bigshare Services at www.bigshareonline.com. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, the register of members and share transfer books of the Company will remain closed from 17th September 2022 to 23rd September 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM. The record date/cut off date for ascertaining the

eligibility to receive final dividend, if declared at AGM will be as at the close of business on

Friday, 16th September 2022. The dividend amount shall be directly credited into the

Pursuant to the MCA Circulars mentioned above and SEBI Circular dated May 12, 2020,

registered bank account of the members within 30 days of declaration to shareholders whose name appear on the Register of members/ Register of beneficial owners as on the cut off date/ record date. Members may kindly check and register /update their bank details with their DPs. The Company will provide its members, facility of remote e-voting, through electronic voting services provided by NSDL for casting votes on all the business items as set out in the Notice of AGM. Members holding shares and recorded in register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on the cutoff date i.e., Friday, 16th September 2022, shall be entitled to e-voting. The remote e-voting shall commence on Tuesday, 20th September 2022 at 09.00 a.m. (IST) and end on Thursday, 22nd September 2022 at 05.00 p.m.(IST). The remote e-voting will be disabled thereafter. Facility for e-voting will also be provided at the AGM to only those members who attend the AGM through VC/OAVM and have not cast their vote. Any person who acquires shares of the Company and becomes member after dispatch of the AGM Notice and holding shares as on cutoff date may obtain the user ID and password by sending request to evoting@nsdl.co.in or if already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

The Company has appointed Mr. Kashyap Shah (Membership No.: F7662, COP No.: 6672), Proprietor of M/s. Kashyap Shah & Co., Practicing Company Secretaries, Vadodara to act as Scrutinizer for remote e-voting/ e-voting at AGM. The result of voting will be announced within two working days of conclusion of AGM and be displayed on the Company's website at www.chemcrux.com, on website BSE Limited at www.bseindia.comand on website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The notice of the AGM along with Annual report will also is available at the website of the Company www.chemcrux.com,at the website of Stock Exchange www.bseindia.comand at the website of NSDL atwww.evoting.nsdl.com.

For e-voting instructions, members may go through the instructions given Notice and in case of any queries or grievances, members may refer the FAQs for shareholders and e-voting user nanual for shareholders, available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or members may send request at evoting@nsdl.co.in or members may contact Ms. Sarita Mote on toll free nos. : 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 and CDSL members may contact CDSL elpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022 23058738 or 022-23058542-43. For CHEMCRUX ENTERPRISES LIMITED Place: Vadodara Sd/- Dipika Rajpal

Date: 31" August, 2022 (Company Secretary)

#### ANSHUNI COMMERCIALS LIMITED CIN: L51900MH1984PLC034879

Regd office: Office No. CC 5041 / 5042, Tower C. Bharat Diamond Bourse,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai, MH - 400 051, Tel No.: 99974 26815, E-mail: cslegal07@gmail.com, Website: http://www.anshuni.com/

NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR 37TH ANNUAL GENERAL **MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING** 

NOTICE is hereby given that the Thirty-Seventh (37th) Annual General Meeting of the Members of Anshuni Commercials Limited will be held on Friday, 23rd September, 2022 at 10:30 A.M. at CC 5041/5042, Tower C, Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Murnbai-400051 to transact the business set out in the notice of the AGM. Notice is further given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, that the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Saturday, the 17th day of September, 2022 to Friday, the 23rd day of September, 2022 (both days inclusive) for the The notice of AGM along with the Statement annexed to the Notice pursuant to Section 102 of

the Companies Act. 2013 and Annual Report of the Company for the year ended 31.03.2022 has been sent to the Members at their postal addresses or e-mailed at e-mail addresses registered with the Company/the depository participant/the registered and Share Transfer Agent (R&T Agent), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz http://www.anshuni.com/

In Compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administrations) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosures Requirement) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide its Member facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the services of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as e-voting agency

The remote e-voting facility shall commences on Tuesday 20th September, 2022 at 9:00 a.m. and ends on Thursday 22nd September, 2022 at 5:00 p.m. During this period Shareholders' of the Company may cast their vote electronically on the items mentioned in the Notice of AGM The e-voting module shall be disable for voting thereafter. Once the vote on a Resolution is cast by the Shareholder, the Shareholder shall not be allowed to change it subsequently A person whose name appears on the Register of Members/Beneficial Owners as on the cu off i.e. date 16th September, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting

dispatch of the Notice and holding shares as on cutoff date may obtain the User Id and Passwords by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com The Members, who have not cast their vote either through remote e-voting, can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make necessary arrangement in this regard at the AGM Venue and shall be able to vote at the Meeting through polling paper

as well as voting at the Meeting. Any person who becomes Member of the Company after

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, however those Members shall not be entitled to cast their vote again at the AGN The detailed procedure for obtaining User Id and Password are also provided in the Notice of the Meeting which is available at Company's website and CDSL's website. If the Member is already registered with CDSL for e-voting then he can use the existing User Id and Password

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company. The results declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website http://www.anshuni.com/ and on the website of CDSL www.cdslindia.com for information of

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND TO VOTE AT THE MEETING IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. The Instrument appointing the Proxy / Proxies, in order to be valid and effective, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the AGM For ANSHUNI COMMERCIALS LIMITED

PRIYESH GARG

DIN: 07636054

### PHF LEASING LIMITED Corp. Office: 87, Radio Colony, Mahavir Marg, BMC Chowk, Jalandhar - 144001, Punjab

CIN No. L65110PB1992PLC012488, Ph.No.0181-4639903-04, Website: www.phfleasing.com, Email id: phf\_leasingltd@yahoo.co.in NOTICE OF 30™ ANNUAL GENERAL MEETING

### Notice is hereby given that the 30" Annual General Meeting (AGM) of PHF Leasing Limited

s scheduled to be held on Friday, September 23, 2022 at 11:30 A.M. IST through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the Circulars Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020.02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 8, 2021 and 21/2021 dated Decemer 14, 2021 and 02/2022 dated May 05, 2022 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred as "MCA Circulars") to transact the ordinary business and unavoidable special business set forth in the Notice of the AGM dated August 12, 2022.

n compliance with the above said Circulars and SEBI Circular dated May 13, 2022, AGM Notice along with the Annual Report for the Financial Year 2021-2022, has been sent via email to those members whose names appeared in the Register of Members/ Beneficial Owner in the register maintained by the Company or Registrar (Skyline Financial Services rate Limited) on Friday, August 26, 2022.

AGM Notice is also available at the Company's website at www.phfleasing.com and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.

Manner of registering/updating e-mail address to cast vote through e-voting Further, members holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. However, for temporary registration for the purpose of obtaining this notice, shareholders may register their email ids with the Company by writing to Ms. Shikha Kapoor, Company Secretary of the Company, at her email id shikha@phfleasing.com

Members holding shares in physical mode are requested to register their email ids with the Company by writing to Ms. Shikha Kapoor, Company Secretary at the email ID shikha@phfleasing.com or to Registrar & Share Transfer Agent M/s Skyline Financial Services Private Limited at the e-mail ID admin@skylinerta.com by quoting your Folio No. PAN, Mobile No., Email-Id along with a self-attested copy of your PAN Card / Aadhar Card and Share Certificate (front and back)

Remote e-voting and voting during AGM The Company is also providing facility to its members to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner

of e-voting is defined as below: A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, September 16, 2022, shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting.

The remote e-voting period commences on Tuesday, September 20, 2022 (9:00 a.m. IST) and ends on Thursday, September 22, 2022 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

Any person who acquires shares of the Company and becomes the member of the Company after sending of this Notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the log in id and password by sending a request at shikha@phfleasing.com or or admin@skylinerta.com. However, if he /she is already registered with NSDL for remote evoting then he/she can use his /her existing user id and password. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned

for Remote e-voting in the notice. Only those members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred

from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM. Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. For detailed instructions relating to attending the meeting through VC or OVAM, please refer

you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.; 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

> Shikha Kapoor Company Secretary, M.No. A19146

For PHF Leasing Limited

Place: New Delhi

FRANKLIN LEASING & FINANCE LIMITED Regd. Off.: Unit/Shop No.205,Second Floor,Aggarwal City Mall Road

No.44, Pitampura North Delhi-110034 Email ID.: franklinleasingfinance@gmail.com CIN: U74899DL1992PLC048028 NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING

**INFORMATION AND BOOK CLOSURE** The notice is hereby given that: The 30th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held at Unit/Shop

No.205, Second Floor, Aggarwal City Mall Road No.44, Pitampura Delhi North Delhi-110034 on Saturday, 24th September, 2022 at 01:30 PM to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM; Electronics Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2021-22 have been

sent to all members whose email IDs are registered with the Depository Participants. The same is also available on the Company's Website- www.franklinleasing.in The dispatch of Notice of AGM has been completed on 01st September, 2022. 3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 17th September, 2022, may cast their vote electronically on the

Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronics voting system of Central Depository Services Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that: i. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be

transacted through voting by electronics means: ii. The remote e-voting shall commence on Wednesday, 21st September, 2022 at

iii. The remote e-voting shall end on Friday, 23th September, 2022 at 5:00 P.M. IST

iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Saturday, 17th September, 2021.

v Any person, who acquire shares of the Company and become member of Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e Saturday, 17th September, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@cdsl.co.in. However, if person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting

vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; and c) the member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting: and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial members maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper;

vii. The Notice of AGM is available on the Company's website-www.franklinleasing.in and viii. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.cdsl.com or call on toll free number 1802005533 or at the designated email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com, who will address the grievances connected with the electronic voting. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned email ID or the Registered Office

**BOOK CLOSURE** 

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Sunday, 18th September, 2022 to Saturday, 24th September, 2022 (both days inclusive).

For Franklin Leasing & Finance Ltd

Place: Delhi Date: 31st August, 2022

Rashmi Bhagat Company Secretary Membership No. 54366

#### Radico RADICO KHAITAN LIMITED

CIN: L26941UP1983PLC027278 Registered Office: Bareilly Road, Rampur - 244 901 (U.P.) Tel. No.: 0595-2350601/2, 0595-2351703 Fax No.: 0595-2350009 Email ID: investor@radico.co.in, Website: www.radicokhaitan.com

INFORMATION REGARDING 38TH ANNUAL GENERAL MEETING

BOOK CLOSURE AND FINAL DIVIDEND Shareholders may note that the 38th Annual General Meeting ("AGM"

of the Company will be held on Thursday, September 29, 2022 at 01:00 P.M. (IST) at the Registered Office of the Company a Rampur Distillery, Bareilly Road, Rampur - 244 901 (U.P.), to transact the business that will be set forth in the Notice of the AGM. 2. In compliance with the Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020

issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and all other Circulars issued by MCA and SEBI in this regard, from time to time electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) The Notice of the AGM is also available on the website of the Company www.radicokhaitan.com, websites of the Stock Exchanges i.e BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the website of

KFin Technologies Limited at https://evoting.kfintech.com. Members holding shares in dematerialised mode, who have no registered/ updated their E-mail addresses, are requested to register their E-mail addresses and mobile numbers with their relevan depositories through their depository participants. Members holding shares in physical mode, who have not registered/ updated their E-mail addresses, are requested to furnish email addresses and mobile numbers with the Company's RTA, KFin Technologies Limited ("KFintech"), Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financia District, Nanakramguda, Serilimgampally, Hyderabad - 500032, To Free Tel: 1- 800-309-4001, Email: einward. ris@kfintech.com

Website: www.kfintech.com. Members will be provided with the facility to cast their votes electronically, through the remote e-voting facility (before the AGM) and through ballot papers (at the AGM), on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. The facility of remote e-voting will be provided by KFintech. Members who will not cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may cast their vote at the AGM through ballot paper Members who will cast their vote by remote e-Voting shall not be eligible to vote at the AGM. Detailed process and manner of remote e-voting, voting at the AGM and instructions for attending the AGM is

being provided in the AGM Notice. The remote e-voting period commences on Sunday, September 25, 2022 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, September 28, 2022 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by KFintech for voting thereafter. During the remote e-voting period, Members holding shares in either physical mode or in dematerialized mode, as on the cut-off date i.e. Thursday, September 22, 2022, may cast their vote electronically as per the process detailed

in the Notice of AGM. Shareholders may note that the Board of Directors at their meeting held on Monday, May 30, 2022 has recommended a final dividend o Rs. 3 per share @ 150%. The record date for the purpose of fina dividend is Thursday, September 22, 2022. The final dividend, once approved by the shareholders at the ensuing AGM, will be paid on or

before Friday, October 28, 2022. The Company has fixed Book Closure dates from Friday, September 23, 2022 to Thursday, September 29, 2022 (both days inclusive) for payment of dividend for the Financial Year 2021-22.

Dividend will be paid, preferably through National Electronic Clearing Service ('NECS'), wherever such facility is available, under intimation to the members. In case dividend cannot be paid through NECS, it wi be paid through dividend warrants/ demand drafts.

In cases where the payments to the members holding shares i dematerialized form are made by dividend warrants, particulars of bank account registered with their Depository Participants will be considered by the Company for printing the same on dividend warrant For those members who have not provided NECS details/ bank account details, the Company shall print the registered address of the members on the dividend warrant

Members are requested to intimate change, if any, in their address (with PIN Code), E-mail ID, nominations, bank details, mandate instructions, NECS mandates, etc. under the signature of the registered

 the Company's RTA in respect of the shares held in physical form; and • the Depository Participants in respect of shares held in dematerialised form 10. In terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961, ('IT Act') dividend income will be taxable in the hands of the Members and the Company is required to deduct tax at source at the prescribed rate from the dividend paid. The deduction of tax at source will be based on

the residential status and classification of Members, documents submitted and accepted by the Company. The Members are therefore, requested to submit requisite tax related documents/ declarations to the Company RTA on or before Thursday, September 22, 2022 to enable the Company to determine the appropriate withholding tax rate applicable 11. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the

Notice of AGM and in particular, instructions for casting vote through remote e-voting and voting at the AGM. By Order of the Board

Dinesh Kumar Gupta

Date: 31.08.2022 Vice President - Legal & Company Secretary Kolkata

financialexp.ep.m.in

Place: Jalandhar

Date: August 30, 2022

CAPFIN INDIA LIMITED CIN: L74999DL1992PLC048032 Regd. Off: 1C/13, Basement, Rajnigandha Building, New Rohtak Road, Delhi-110005 Email: capfinindialtd@yahoo.co.in

NOTICE Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Wednesday, September 7, 2022 at 2:00 p.m. at the registered office of the company at 1C/13 Basement, Rajnigandha Building, New Rohtak Road, New Delhi - 110005 to consider, approve and take on record, the notice of AGM of the Company for the year ended on March, 2022, appointment of scrutinizer for the year 2021-22 and any other relevant

🚳 इण्डियन ओवरसीज बैंक काबरी शाखा (3636) गांव + पोस्ट -काबरी , अर्बन कोआपरेटिव सोसाइट के पास , जिला पानीपत -132103

यह फाइनेंसियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) + जनसत्ता (हिंदी) में 31.08.2022 को प्रकाशित कब्जे की सूचना के विज्ञापन के संदर्भ में है जिसमें 1 सुधार निम्नानुसार

खातेदार श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री रणबीर सिंह के ऋणी में डिमांड नोटिस की तिथि 17.05.2021 के बजाय 07.02.2022 पढी

अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। दिनाँक : 31.08.2022

इंडियन ओवरसीज बैंक स्थान : पानीपत

88 / 24 में से, गांव इस्तासाल दिल्ली की राजस्व संपत्ति में स्थित के रूप में जाना जाता है, डीबलॉक उत्तम नगर, नर् एस्टेट दिल्ली की राजस्व संपत्ति में रिश्वत खरारा संख्या 83/4 और 88/24 में से 75 वर्ग गज वानी 62.71 वर्ग मीटर की तरफ, कॉलोनी बाल उद्यान रोड, डी-बॉक उत्तम नगर के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र आबादी, नई दिल्ली-110059 पढा जाना चाहिए ।

शाखाः आरएसीपीसी, भूतल, नारायणा, नई दिल्लं ईमेल आईडी: sbi.50792@sbi.co.in

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में

प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार के समझ (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : वाईसी कॉ वर्किंग स्पेस, तीसरा फ्लोर, प्लॉट नं, 94 द्वारका सेक्टर 13 ऑपोजिट मेट्रो स्टेशन नियर रेडिसन ब्लू, दिल्ली-110078 में स्थित है

आवेदक कंपनी / कंपनी आम जनता को यह सचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की

व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप काइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी मेजेगा। रजिस्ट्रीकृत कार्यासय: वाईसी को वर्किंग स्पेस, तीसरा

फ्लोर, प्लॉट नं. 94 द्वारका सेक्टर 13 ऑपोजिट मेट्रो स्टेशन नियर रेडिसन ब्लू, दिल्ली-110078 उनके लिए और उनकी और से

उद्धपी कासरगोढ ट्रांसगिशन लिमिटेड राजीव भाटिया

तिथि : 31.08.2022 स्थान : दिल्ली ढीआईएन : 07813589

"प्रपन्न सं. आइएनसी—26"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के **ਚ**पनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

ऑपोजिट मेट्रो स्टेशन नियर रेडिसन ब्लू,

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सुवना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके नीचे उल्लिखित

स्टेशन नियर रेडिसन ब्लू, दिल्ली-110078 तनके लिए और तनकी और से स्टरलाइट ग्रिंड 14 लिमिटेड

कियनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण मी

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विद्वापन केन्द्रीय सरकार के समझ (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र)

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : वाईसी कॉ वर्किंग स्पेस, तीसरा फ्लोर, प्लॉट नं. 94 द्वारका सेक्टर 13 ऑपोजिट मेट्रो स्टेशन नियर रेडिसन ब्लू,

दिल्ली-110078 में रिथत है आवेदक कंपनी / कंपनी आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **'राष्ट्रीय** राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियामा राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 19 अगस्त, 2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, हितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत ढाक द्वारा मेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

स्टेशन नियर रेडिसन ब्लू, दिल्ली-110078

### 🌃 फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

702, सातवी मंजिल, यनिक एस्पायर, प्लॉट नं. 13-14, कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्गे, वैशाली नगर, जयपर-302021, राज

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना) (अचल सम्पत्ति हेतू) जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता **फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 13 (12) के नियम (3) अधिनियम 2002 एवं सपठित नियमों के नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में माँग सुचना दिनांक 18-04-22 को निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी नफीस खान पुत्र सरवर खान, श्रीमती आजरा खान पत्नी नफीस खान, बाबर खान पत्र कमर खान, , ऋण खाता संख्याः FIGBHLLONS000005009988 से नोटिस में वर्णित राशि 21,71,036/- ( इक्कीस लाख इकहत्तर हजार छतीस रुपये मात्र) कुल देय राशि 15.04.2022 तक ब्याज के साथ को इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों

लिये कहा गया था। ऋणी/बंधककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता को तथा सामान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 1 3 की उपधारा (4) तथा सपिठत प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 24माह अगस्त वर्ष 2022 को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार रूपये 23,07,714/- (तेड्स लाख सात हजार सात सी चौहत्तर रूपये मात्र) तक तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक की राशि फिनोवा कैंपिटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। ऋणी का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा

1 3 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित सलीम आवासियाना पुराना नगर पालिका मकान नं. 308, नया मकान नं. 411, खसरा नं. 131/1 ग्राम कल्ला भट्टा (प्रेम नगर के पास), परगना लूनी जिला गाजियाबाद उ.प्र. क्षेत्रफल 38.50 वर्ग गज जो कि नफीस खान के स्वामित्व में है। जिसकी

> पूर्व में: सलीम का मकान, पश्चिम में: रोड, उत्तर में: नासिर अली का मकान, दक्षिण में: रशिदा की संपत्ति

दिनांक : 26.08.2022 रयान : गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

एसआरएम एनर्जी लिमिटेड SRM Energy

CIN L17100DL1985PLC303047

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि: एजीएम की सूचना दिनांक 10 अगस्त, 2022 में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को प्रातः 11.00 बजे फेटरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन, निर्वात भवन, राव तुला राम मार्ग, आर्मी अस्पताल रिसर्च एंड रैफरल के सामने, नई

2/2022 दिनांक 5 मई 2022 के क्रम में इसके पूर्व परिपन्न सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपन्न सं. 2/202 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र सं. 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021 एवं परिपत्र सं. 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 और भारतीय प्रतिभवि तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं सेबी / एवओ / सीएफठी / सीएमठी2 / सीआईजार / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 के क्रम में इसके पूर्व परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 के अनुसरण में कृपवा ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एजीएम की सूचना व वार्षिक रिपोर्ट उन सभी शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मध्यम (ई-मेल) से मेज दी गई है जिनके हूँ-भेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं मारतीय प्रतिमृति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये उपरोक्त कथित निर्देशों के अनुसार कंपनी द्वारा सभी शेयरधारकों को संबोधित करते हुए 19 अगस्त, 2022 को समावारपत्रों में एक सचना / विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें उनसे कंपनी / ढिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास अपनी ई-मेल आईही पंजीकृत कराने का अनुरोध किया गया था। इसके साथ ही कंपनी ने 18 अगस्त, 2022 को स्टॉक एक्सबेंज, जहां कंपनी के शेवर सूचीबद्ध हैं, अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट पर भी इसे प्रकाशित किया था, जिसमें कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने का अनुरोध किया गया व एवं इस सबना में ई-बोटिंग की जानकारी भी दी गई थी। कथित जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर भी

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट http://www.srmenergy.in/Home/AnnualReports एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> पर उपलब्ध है और

सेबी (सूचीयन बाव्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 के विनियम 42 और कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 91 के साथ उसके अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतु कंपनी के सदस्यों का राजिस्टर और रोवर ट्रांसफर बुक नुक्रवार, 22 सितम्बर, 2022 से बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

विनिवम, 2015 के विनियम 44 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2013 के नियम 20 के अनुसरण में कंपनी ने अपने सदस्यों (भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप दोनों में शेवर धारण करने वाले) को सेन्ट्रल ढिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाओं के द्वारा एजीएम की सूचना में निर्घारित प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट देने के लिए शेयरघारकों की योग्यता के निर्धारण के रिकार्ड हेतु कट-ऑफ तिथि 21 सितम्बर, 2022 है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 📢 35वीं एजीएम की सूचना में निर्घारित व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, (बी) वितीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का ठिएपैच करने का कार्य (केवल ई-मेल के माध्यम से) 30 अगस्त, 2022 को प्रारंभ किया गया है, (सी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग रविवार, 25 सितम्बर, 2022 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को साथं 5.00 बजे समाप्त होगी, (डी) 27 सितम्बर, 2022 (मंगलवार) को साथ 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बोट देने की अनुमति नहीं होगी. 🗱 35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट http://www.smenergy.in/ और सीढीएसएल की वेबसाइट https://www.evotinginda.com/ पर उपलब्ध है और (एक) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एवं विधि के लिए सदस्यगण वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 के (पेज नं. 67 से 69) में शामिल निर्देशों को

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त कथित सूबना / वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् २१ सितम्बर, २०२२ (वोट इलंक्ट्रॉनिक मध्यम से देने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि) को शेयर धारण करता है वह वार्षिक रिपोर्ट में ई-वोटिंग के लिए वर्णित निर्देशों का पालन कर सकता है। एजीएन में भौतिक प्रारूप में वोट देने की सविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित ऐसे सदस्य जिन्होंने ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वे ही बैठक में भौतिक माध्यम से वोट दे पाएंगें ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने वाले सदस्य भी बैठक में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। आगामी वार्षिक आम बैठक के लिए श्री सतीश कुमार निरंकर, एस. के. निरंकर एंड

एसोसिएटस, पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया गया है। ई—बोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ या परेशानी के लिए आप सीढीएसएल को <u>helpdesk.evoling@odslindia.com</u>

cs@smenergy.in या फोन नम्बर 01141403205 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

स्थानः नई दिल्ली

अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड

पंजी. कार्या: 37, हरगोविन्द एन्कलेव, विकास मार्ग, दिल्ली—110092

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L74900DL1983PLC014972 दुरभाष : +91-11-22373437, फैक्स नं. : +91-11-22373537

#### वेबसाइट : www.apollotricoat.com, ई-मेल: info@apollotricoat.com सदस्यों के लिए 40वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने सर्क्युलर सं. 20६२०२० तिथि 5 मई, 2020 के साथ पठित एमसीए सर्कयूलर सं. 14/2020, 17/2020 तथा 02/2021 क्रमश: तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 [''सेबी (एलओडीआर) विनियमनों''] के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्क्युलर नं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/पी/ 2020/ 79 तिथि 12 मई, 2020 तथा सर्क्युलर नं. सेबी/ एचआs/ सीएफडी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2021/ 11 तिथि 15 जनवरी,2021 और परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई 2022 (''सेबी सर्क्युलर") के प्रावधानों तथा उपरोक्त एमसीए सर्क्युलर्स के अनुपालन में कम्पनी की 40वीं एजीएम किसी सामूहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा बुधवार,

संबंधित सेबी तथा एमसीए सर्क्युलर्स के अनुपालन में 40वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के वार्षिक रिपोर्ट के साथ ई–वोटिंग सहित वीसी सविधा द्वारा 40वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण ईमेल द्वारा केवल ऐसे सदस्यों को ही भेजे जाएंगे जिनके ईमेल पते कम्पनी अथवा रजिस्टार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स (''डीपी'') के पास पूर्व से ही पंजीकृत हैं। सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि सदस्यों को 40वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्र/त्रों

तथा सेबी परिपत्र के माध्यम से निरस्त कर दी गयी है। सदस्यगण केवल वीसी सुविधा द्वारा ही 40वीं एजीएम में शामिल तथा भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश सूचना में दी गई है। वीसी सुविधा द्वारा भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी। 40वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट( www.apollotricoat.com) स्टॉक एक्सचौंज

(''सीडीएसएल'') ( www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह कम्पनी 40वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर मतदान करने के लिये अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई–वोटिंग के विस्तृत निर्देश उक्त सूचना में दी गई है। सदस्यों द्वारा मतदान करने की सुविधा ("ई-वोटिंग") सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग अवधि 25 सितम्बर, 2022 को (10.00 बजे पूर्वा.) प्रारम्भ होगी और 27 सितम्बर, 2022 (5.00 बजे अप.) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कट—ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 तक भौतिक प्रारूप या

की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के लिए की जायेगी। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते कम्पनी अथवा आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे अपने ई-मेल पंजीकरण हेतु 40वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग सहित वीसीध्ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 40वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेन्ट के पास investor@bigshareonline.com पर अथवा कम्पनी के पास info@apollotricoat.com पर अपना नाम, फोलियो नम्बर/डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी, क्लाइन्ट मास्टर कॉपी या समेकित खाता विवरण की प्रति (डीमैट धारिता की स्थिति में), शेयर प्रमाणपत्र की प्रति— आगे तथा पीछे (भौतिक धारिता के मामले में), पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति भेजकर अपने

ई-मेल पते पंजीकृत करा सकते हैं। डीमैट धारिता के मामले में कृपया अपने डीपी से सम्पर्क करें और अपने डिपॉजिटरी भागीदार द्वारा परामर्शित प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में ई–मेल पता तथा बैंक खाता विवरण पंजीकृत करायें। यदि कोई व्यक्ति 40वीं एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तिथि के बाद शेयर अर्जित करते

हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट—ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 को शेयरधारित करते हैं, वे 40वीं एजीएम की सूचना में वर्णित निर्देशों का पालन कर अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर

> कृते एवं हिते अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) एकबाईसी बिजनेट पार्ट, नई एमडीबीपी बिलिंग, दूसरी मंतिल, जोखता इंडस्ट्रीयज एस्टेट, नई दिल्ली-110000

सार्वजनिक नीलामी / निविदा सूचना ई- नीलामी के माध्यम से क्लीयर न किए गए/अदावाकृत आयातित कार्गो का निपटान करना

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र के उन कंटेनरों पर य 31-03-2021 से पहले एरिया 1 और एरिया 4 के टर्मिनलों पर पड़े रदी वस्तुओ, खाली पड़े श्वतिग्रस्त कंटेनरों और अदावाकृत / क्लियर ना किये गए आयातित कार्गो की ई—र्नीलामी के माध्यम से 16-09-2022 और 30-09-2022 को "जैसा है जहां है के आधार पर" नीलामी करेगा नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तों एवं कार्गो विवरणों के साथ सभी विवरण 01–09–2022 और 19—09—2022 से www.concorindia.co.in एवं www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध होंगे सभी आयातकों जिनमें सरकारी उपक्रम / विभाग भी शामिल हैं. के कंटेनर / सामान किसी विवाद न्यायालय / अधिकरणों / अन्यो द्वारा दिये गए स्थगन के कारण या ऐसे किसी ऐसे अन्य कारण र संबन्धित टर्मिनलों पर अदावाकृत / क्लीयर न किए गए पड़े हैं और वेबसाइट में अपलोड की गई उक्त सूची में आते हैं, वे संबन्धित कार्यकारी निदेशक, एरिया 1 और एरिया 4 कॉनकोर और संबधित कमीशनरी, सीमा शुल्क आयुक्त को तदनुसार सुचित कर सकते हैं और इस सुचना के 7 (सार दिनों) के भीतर ऐसे सामानों के निपटान के संबंध मे अपनी आपत्तियाँ / दावे दर्जे करा सकर्त हैं ऐसा नहीं करने पर और कोई सूचना दिये बगैर सामानों की **'जैसा है जहां है के आधार पर** नीलामी कर दी जाएगी। पूर्ण विवरण के लिए कृपया www.concorindia.co.in एव www.mstcecommerce.com परे लॉग ऑन करें। कार्यकारी निदेशक,

#### Fullerton India Fullerton India Credit Company Limited माँग सचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत फुलर्टन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (एफआईसीसीएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग निम्नलिखित कर्जदारों को कथित सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध सचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पनर्भगतान करने को कहते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सचना(एं) जारी की थीं। अधोहस्ताक्षरी को तार्किक रूप से विश्वास है कि कर्जदार माँग सुचना(ओं) की सेवा की अनदेखी कर रहे हैं अतः सचना की सेवा नियमों के अनुसार चिपकाकर तथा प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। माँग सूचना की विषय सामग्री निम्नवत है

कर्जदार(रों) का नाम माँग सुचना की तिथि। अचल सम्पत्तियों बंधक सम्पत्तियों का विवरण अपर इंडिया टेडिंग कम्पनी दिल्ली (प्रा. 08/08/2022 लिमिटेड, इसके निदेशक श्री सुनील सेठी के 08/08/2022 को 1/1661-1662 का भतल माध्यम से, सुनील सेठी, सिम्मी सेठी, राघव सेठी लोथियान रोड, कश्मीरी गेट, रु. 4,30,19,943/-खाता सं. : 166503110057806 दिल्ली-110006 में स्थित

कर्जदारों को माँग सुचना(ओं) का अनुपालन करने तथा उसमें यहाँ ऊपर उल्लिखित माँग राशि को भुगतान की वस्ली की तिथि तक प्रयोज्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस प्रभार, लागत तथा व्यय के साथ इस प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के भीतर अदा करने का परामर्श दिया जाता है। कर्जदार कृपया ध्यान दें कि एफआईसीसीएल प्रतिभूत लेनदार है और कर्जदार(रों) द्वारा ली गयी ऋण सुविधा कर्जदार(रों) द्वारा बन्धककृत प्रतिभूत आस्ति(याँ) होने के कारण अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिभृत ऋण है।

यदि कर्जदार निर्धारित समय–सीमा में अपनी देयताएँ चुकाने में असफल रहते हैं तो एफआईसीसीएल बिक्री द्वारा अथवा अधिनियम तथा उसके तहत नियमों के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपचार द्वारा शामिल किन्तु सीमित नहीं, अन्तरण सहित प्रतिभृत आस्ति(यों) का कब्जा लेने हेत अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त अधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी होगा और भुगतान की वसुली करेगा। एफआईसीसीएल को बिक्री या अन्तरण के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व प्रतिभृत आस्ति(यों) को कुर्की तथा/अथवा सील करने की भी शक्ति प्राप्त है। प्रतिभृत आस्ति(यों) की बिक्री के अनुक्रम में एफआईसीसीएल को, यदि बन्धककृत सम्पत्तियों का मूल्य एफआईसीसीएल के बकाया देयताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त हो तो शेष बकायों की वसूली के लिए अलग से विधिक कार्यवाही करने का भी अधिकार है। यह उपचार किसी अन्य कानुन के तहत एफआईसीसीएल के पास उपलब्ध अन्य समस्त उपचारों के अतिरिक्त तथा स्वतन्त्र है। प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर तथा अधिनियम की धारा 13(13) आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा कर्जदार एफआईसीसीएल की लिखित पूर्व सहमित के बिना प्रतिभूत आस्ति(यों) का निस्तारण या उससे संव्यवहार अथवा किसी भी प्रतिभृति आस्ति की बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से अन्तरण (सामान्य व्यवसाय की प्रक्रिया को छोडकर) नहीं कर सकेगा और उपर्युक्त का अनुपालन न करना कथित अधिनियम की धारा 29 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। माँग सचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार, यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से कार्यालयी घण्टों के दौरान किसी भी कार्यकारी दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

तिथि : 01.09.2022, स्थान : दिल्ली

फुलर्टन इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

उज्ज्वल- अधिकृत प्राधिकारी

खदरा संपत्ति केंद्र: एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर टी –2, दूसरी AXIS BANK मंजिल, आई -14, सेक्टर -128, नोएडा एक्सप्रेसचे, जेपी ग्रीन्स विशटात वहीं पर थी :एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस डाउस, टॉवर टी –2, दूसरी मंजिल, आई –14, सेक्टर –128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाचन, नोएडा (यूपी) -201301

कॉर्पोरेट कार्यालय: 'एक्सिस हाउस', ब्लॉक– बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांड्रंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025,

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कब्जा—सूचन

पंजीकृत कार्यालयः त्रिश्चलं, तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, ली गार्डन, एतिसत्तिज, अहमदाबाद-380006

चूंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए ऋणी/सह—उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया। ऋणी/सह–उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहे, एतद्दवारा ऋणी/सह—उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और आम जनत को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणी/सह–उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जार्त है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के शूल्क के अधीन होगा। ऋणी/सह-उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) का

ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा

13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ı	उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता का नाम	संपत्ति विवरण	मांग सूचना की तिथिः
	1. श्री नील कंठ सिंह पुत्र श्री राम विश्वास सिंह और 2.श्रीमती नीलिमा सिंह पत्नी श्री नील कंठ सिंह ,दोनों निवासी : एलआईजी अपार्टमेंट, पी-ए-1, सेक्टर 2, रोहिणी उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली -110085 , यहाँ भीः जी-एच -11, सेक्टर-2, धुरवा राची, धुरवा, झारखंड - 651229, इसके अलावा हाउस नंबर 195, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-एच, पॉकेट-17, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली 110085, 3. श्री नील कंठ सिंह कमल विश्वास, इंटरप्राइजेज, ग्राउंड फ्लोर ऑफिस नंबर-10, मंगलम पैराडाइज मॉल, प्लॉट नंबर-8, सेक्टर-13, मंगलम प्लेस, रोहिणी, रिंग रोड मॉल, नई दिल्ली-110085	आनुपातिक हिस्से के साथ ब्लॉक एच , पॉकेट — 17, सेक्टर — 7, रोहिणी की लेआउट योजना , आवासीय योजना, दिल्ली — 1110085 में स्थित निर्मित संपत्ति संख्या 195 के के सामान्य सीढ़ी और मार्ग / प्रवेश भाग के साथ छत अधिकारों के बिना सम्पूर्ण दूसरी मंजिल, क्षेत्र मापक्षेत्र 60 वर्ग मीटर।	कब्जे की तिथिः 30- अगस्त -2022 मांग नोटिस में राशि (क):
	श्री नवीन चंद शर्मा प्रोपराइटर—मैसर्स दुर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, खसरा नंबर 8/18, सी—डी ब्लॉक, गली नंबर 30,कमल विहार,	दिल्ली—110089 में लेआउट प्लान में स्थित ब्लॉक नंबर ए, पॉकेट नंबर 3, सेक्टर नंबर 18 में भूतल पर गैराज के साथ—साथ डीडीए बिल्ट—अप फ्रीहोल्ड फ्लैट बेयरिंग नंबर 43, प्रथम तल, कैटेगरी एमआईजी, साथ हीं	31—सितम्बर —2021
	कमालपुर, दिल्ली—110084	उक्त पलैट के अंतर्गत भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकार। चौहद्दी : उत्तर— बिक्री विलेख के अनुसार , पश्चिम—बिक्री विलेख के अनुसार, दक्षिण—बिक्री विलेख के अनुसार, पूर्व— बिक्री विलेख के अनुसार	रु. 78,29,455/ (अठहत्तर लाख उन्तीस हजार चार सौ पचपन रुपये मात्र)

उपर्युक्त ऋणी/सह—उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को एतद्दवारा राशि चुकाने के लिए 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम : और 9 के प्रावधानों के अनुसार, गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेची जाएंगी।

दिनांकः 30 अगस्त, 2022 स्थानः नोएडा अधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक

### फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

CIN No: U74899DL1992PLC048028 पंजी. कार्या.: यूनिट/शॉप नं. 205, दूसरा तल, अग्रवाल सिटी माल रोड नं. 44, पीतमपुरा उत्तर दिल्ली-110034

ईमेल आईडीः franklinleasingfinance@gmail.com

30वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग सूचना और किताबबंदी

रतदद्वारा नोटिस दिया जाता है किः . कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') यूनिट/शॉप नंबर 205, दूसरी मंजिल, अग्रवाल सिर्ट मॉल रोड नंबर 44, पीतमपुरा दिल्ली उत्तरी दिल्ली –110034 में शनिवार, 24 सितंबर, 2022 को अपराह 01:30 बजे जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार सामान्य और विशेष कार्य के संचालन वे

2. एजीएम के नोटिस और 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों के भेज दी गई हैं, जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट- www.franklinleasing.in पर भी उपलब्ध है। एजीएम के नोटिस का प्रेषण 01 सितंबर. 2022 को पूरा कर लिया गया है।

3. दिनांक 17 सितंबर, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, एजीएम ("रिमोट ई-वोटिंग") के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से सेंटल डिपॉजिटर्र सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सुचना निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः . एजीएम की सचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के माध्यम से किया जा सकता है:

ii. रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 21 सितंबर, 2022 को सुबह 10:00 बजे आईएसटी से शुरू होगी। iii. रिमोट ई-वोटिंग शक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे आईएसटी पर समाप्त होगी। iv. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शनिवार

17 सितंबर, 2021 है। . कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, 17 सितंबर, 2022 तक शेयर धारण करता है, वह एक evoting@cdsl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है;

ए) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए पूर्वोक्त तिथि और समय के बाव निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद मे इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी; ख) बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी; और ग) सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और डी) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटर्र द्वारा बनाए गए लाभकारी सदस्यों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख को दर्ज है, केवल रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में मतपत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा;

viii. प्रश्नों के मामले में, सदस्य https://www.evoting.cdsl.com के डाउनलोड अनुभाग सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकत पस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1802005533 पर कॉल कर सकते हैं या निर्दिष्ट ईमेल आईडी परः helpdesk.evoting@cdslindia.com, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुर्ड़ शिकायतों का समाधान करेगा। सदस्य कंपनी सचिव को उपर्युक्त ईमेल आईडी या पंजीकृत कार्यालय

vii. एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट- www.franklinleasing.in पर उपलब्ध है और

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक रविवार, 18 सितंबर, 2022 से शनिवार, 20 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। कते फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड @pnb Housing

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

Finance Limited हरिद्वार शाखा कार्यालयः पीएनवी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दिल्ली हरिद्वार मेन रोड, अरविंदो आश्रम के बगल में,

रानीपुर मोड, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार - 249407 प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली. 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सुबना

हम, पीएनबी डाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वत्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय 111 की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। जक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित आप सब कर्जदारों / सह–कर्जदार / गारंटरों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता, किश्तों / ब्याज का भूगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बँक / राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आरित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकीं विषयवरत् आपके द्वारा मुलधन की किश्तों, ब्याज इत्यादि के भगतान में की गई चुकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपेक्षित भी है। एतदद्वारा आपसे उक्त राशि अद्यतन ब्याज तथा अन्य राशियों सहित. जो भगतान की तिथि तक देय हो

सकती हैं, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर

पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्याभृत आरितयों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही

करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्याभुत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिल है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और

पुनरनिर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आर्मेत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि यदि सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्यामृत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है, तो आप उसके पश्चात प्रत्यामृत आस्ति(या) छुडाने के हकदार नहीं होंगे। आगे, आप के ऊपर, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभृत आस्तियों का बिक्री, पटटा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है। कर्जदार, सह-कर्जदार मांग सचना के बंधक सम्पत्ति खाता सं का नाम / पता नाम और पता की तिथि अनुसार बकाया राशि HOU/HW स्वः श्री सतीश क्मार के सभी कानूनी वारिस, 16.08.2022 16-08-2022 (1春 प्लॉट नंबर ए 19, खसरा नं. 606, R/0820/ श्री दृष्यंत कुमार (सह-उधारकर्ता), पता- म. राज विहार कॉलोनी फेज -। ₹. 14,84,217.64 809102 नं. 208, राज विहार, फेज -1. जगजीतपर ग्राम जगजीतपुर नगर परिषद के (रुपये चौदह लाख कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249407, भारत चौरासी हजार दो बी.ओ. भीतर, परगना- ज्वालापुर, तहसील हरिद्वार सौ सन्नह एवं पैसे एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखंड

चौंसठ मात्र) -249407 भारत में रिथत HOU/HW श्री नितिन कुमार (उधारकर्ता), श्री मुकेश कुमार आवासीय भवन, भूखंड नं 249 ए, 17.08.2022 17-08-2022 राक R/0919/ एवं श्रीमती बबली देवी (सह- उधारकर्ता), पता-प्लॉट नं 119, खसरा नंबर 311 एम ₹. 17,59,565.55 748457 126, शिवम विहार, रोशनाबाद, काल्विन केयर के रिधत रोशनाबाद टिहरी विस्थपित (रुपये सन्नह लाख पास, हरिद्वार, उत्तराखंड - 249403, भारत एवं गांव उनसठ हजार पांच क्षेत्र ग्राम सलेमपुर महदूद 1 हरिद्वार गोगवान जलालपुर, शामली, मुजपफर नगर, उत्तर परगना रुडकी, तहसील एवं जिला सौ पैंसठ एवं पैसे प्रदेश - 251305 भारत पचपन मात्र) हरिद्वार, उत्तराखंड -249407 प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड स्थान : हरिद्वार, दिनांकित : 31-08-2022

> IEC EDUCATION LIMITED CIN: L74899DL1994PLC061053 Regd. Office: M-92, Connaught Place, New Delhi - 110001

Webside: http://www.iecgroup.in, Tel.No:-011-41052893 Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022

					Rs. In Lac	
	Particulars	Consolidated				
C No		Quarter ended			Year ended	
S. No.		30/06/2022	30/06/2021	31/03/2022	31/03/2022	
		Unaudited	Unaudited	Audited	Audited	
1	Total Income From Operations	0.00	0.00	1.09	1.09	
2	Net Profit / (Loss) (before tax exceptional, and/or Extraordinary items)	(4.01)	(3.47)	(9.81)	(23.57)	
3	Net Profit / (Loss) before tax (after exceptional, and/or Extraordinary items)	(4.01)	(3.47)	(9.81)	(23.57)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items and before minority interest)	(4.01)	(3.47)	(9.81)	(23.57)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) (after minority interest)]	(4.01)	(3.47)	(9.81)	(22.34)	
6	Paid up Equity Share Capital	1526.00	1526.00	1526.00	1526.00	
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year			1581.63	1603.97	
8	EPS per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	Basic:	(0.03)	(0.02)	(0.06)	(0.15)	
	Diluted:	(0.03)	(0.02)	(0.06)	(0.15)	
Notes :-	1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange und Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The Full Format Quarterly / Yearly Financial Results are available on the Website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com					

4. The standalone financial results are available on the website of the Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com. Key standalone figures are as follows Rs. in Lacs S. No. Quarter ended **Particulars** Year ended 30/06/2022 30/06/2021 31/03/2022 31/03/2022 Revenue from Services (0.78)0.00 Profit/(Loss) Before Tax (4.01)(3.47)(9.81)(23.57)(3.47)(23.57)(4.01)(9.81)

Committee and Subsequently approved by the Board of Directors Meeting helf on August 30, 2022

3. figures for Prior Period have been regrouped and / or rearranged, wherever necessary

The aforesaid Financial Results have been subjected to limited review of Statutory auditors and reviewed by the Audit

On behalf of Board For IEC EDUCATION LIMITED

**NAVIN GUPTA Managing Director** DIN: 00097128

### KANPUR FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED

(पूर्व का कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट लिमिटेड)

सीआईएन: U24233UP2010PLC040828

पंजीकृत कार्यालयः सेक्टर-128, नोएडा-201304 (उ.प्र.) दूरभाषः +91 120 4609000, फैक्सः +91 120 4963122 ई-मेलः kfcl.investor@jalindia.co.in, वेबसाइटः www.kfclkanpur.com

> 13वीं वार्षिक आम बैठक तथा बुक क्लोजर के सम्बन्ध में सुचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बिना किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमित देते हुए कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में 12वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए कंपनी की 12वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('वीसी / ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 12वीं एजीएम की सुचना 31 अगस्त, 2022 को केवल उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉज़िटरी पार्टीसिपेंट्स के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम के नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति सदस्यों को भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। 12वीं एजीएम की सूचना

और वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.kfclkanpur.com पर भी उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने और उसमें मतदान करने की विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश 12वीं एजीएम की सूचना में निहित हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य अधिकृत प्रतिनिधि से 0120-4972625 पर संपर्क कर सकते हैं या

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी द्वारा 12वीं एजीएम की सूचना ई-मेल के माध्यम से भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है, एजीएम की सूचना, जो कम्पनी की वेबसाइट www.kfclkanpur.com पर उपलब्ध है, में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों के अनुसार एजीएम में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है और एजीएम की पूर्वोक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट के लिए

kfcl.investor@jalindia.co.in पर अनुरोध भेज सकता है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति को ई-मेल द्वारा kfcl.investor@jalindia.co.in पर तुरन्त भेजकर कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत

(क) नाम, फोलियो नंबर और पूरा पता का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र;

(ख) पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन कॉपी: तथा

kfcl.investor@jalindia.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।

(ग) कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्वयं प्रमाणित स्कैन की गई प्रति।

(घ) शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (सामने और पीछे दोनों तरफ) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ई-मेल पता तरंत पंजीकृत/अद्यतन करें।

शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में भाग लेने के

निर्देश और एजीएम के दौरान वोट डालने सहित बैठक में भाग लेने के तरीके एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा यदि किसी सदस्य को एजीएम में भाग लेने या मतदान के लिए किसी भी सहायता की आवश्यकता होती है, तो वह अधिकृत प्रतिनिधि से 0120-4972625 पर संपर्क कर सकता है या kfcl.investor@jalindia.co.in पर ई-मेल भेजें। ई-मेल पते के पंजीकरण/अपडेशन के संबंध में किसी भी सहायता के लिए, सदस्य अधिकृत प्रतिनिधि से 0120-4972625 पर संपर्क

कर सकते हैं या kfcl.investor@jalindia.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।

कृते कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

रितु गुप्ता

For Capfin India Limited Rachita Mantry Place: Delhi Whole Time Director Date: August 31, 2022 Din: 03414391

शुद्धि पत्र

जानी चाहिए । प्राधिकत अधिकारी.

शुद्धिपत्र यह शुद्धिपत्र श्री जितेंद्र चौधरी पुत्र श्री दिगंबर चौधरी वं स्वामित्व वाली गुमशुदगी/पता लगाने के लिए इस समाचार पत्र में 11,08,2022 को प्रकाशित विज्ञापन के पते संदर्भ में है, संपत्ति का अशुद्ध पता प्लॉट नंबर डी-18 ए, पश्चिम की ओर 75 वर्ग गज वानी 62.71 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 83./4 और दिल्ली-110069 के बजाय सही पता प्लॉट नंबर डी-168ए, पश्चिम की ओर, गांव इस्तसाल दिल्ली

सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,

'प्रपत्र सं. आइएनसी—26"

उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड

धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **'राष्ट्रीय** राजवानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाना राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 19 अगस्त, 2022 को आयोजित असामारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं। कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह

प्रकार और उसके विशेध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के मीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी

किंपनी (निगमन) निवम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र)

स्टरलाइट ग्रिंड 14 लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : वाईसी कॉ वर्किंग स्पेस, तीसरा पलोर, प्लॉट नं. 94 द्वारका सेक्टर 13

दिल्ली-110078 में रिधत है ...आवेदक कंपनी / कंपनी आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**' से 'हरिया**ना राज्य**' में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 19 अगस्त, 2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में

संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा। रिजस्ट्रीकृत कार्यालय : वाईसी की वर्किंग स्पेस, तीसरा फ्लोर, प्लॉट नं. 94 द्वारका सेक्टर 13 ऑपोजिट मेटो

संजीव माटिया तिथि : 31.08.2022 स्थान : दिल्ली डीआईएन : 07813589 'प्रपत्र सं. आइएनसी—26'

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के तपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड (अस्टबाईव वापी ॥-नॉर्च वसीमपुर ट्रांसमिशन तिमिटेड)

संशोधन की पृष्टि की मांग की गई हैं। कंपनी के रजिस्टीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

उनके लिए और उनकी और से मुंबई कर्जा मार्ग लिमिटेड (अर्स्टवाईल वापी 🎚- नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड)

संजीव भाटिया निदेशक

तिथि: 31 अगस्त, 2022

स्थान: दिल्ली

ांजीकृत व व्यवस्थापक कार्यासयः 21 बसंत लोक कॉम्पलेक्स, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 टेलीफोन नंदः 011-41403205 | वेक्साइटः www.srmenergy.in | ईमेलः info@srmenergy.in

दिस्सी-110057 में आयोजित की जाएगी। बल रही कोविड-19 महामारी को देखते हुए कॉर्पोरेंट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपन्न स

कंपनी अग्निनियम, 2013 की घारा 108 के प्रावधानों, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं)

मली-मांति पद लें या सीढीएसएल की वेबसाइट https://www.evolingindia.com/ को देखें।

पर ई—मेल भेज सकते हैं या 1800225533 पर सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ, असुविधा या शिकायत, यदि कोई हो, के लिए कंपनी के ई-मेल कृते एसवारएम एनर्जी सिमिटेड (विशाल रस्तोगी)

प्रबंध निदेशक DIN: 0278097 Apollo TriCoat

28 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. में आयोजित करने का फैसला किया गया है।

की वेबसाईटों (www.bseindia.com) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों

यदि एजीएम में उपस्थित होने एवं ई–वोटिंग प्रणाली से ई–वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.comij उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा ई—वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई—मेल लिखें अथवा टोल फ्री नं. 1800225533 पर कॉल करें। एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट उचित समय पर उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर प्रयोज्य कानूनों के अनुसारं सदस्यों के पास भेज दी जायेगी।

> हस्ता./-शिवम महेश्वरी

रशमी भगत दिनांक: 31 अगस्त. **2022** स्थानः दिल्ली

सदस्यता नं. 54366

कंपनी सचिव

दिनांक: 31 अगस्त, 2022

तिथि : 31.08.2022 स्थान : दिल्ली ढीआईएन : 07813589

www.readwhere.com

रिजस्ट्रीकृत कार्यातय : वाईसी कॉ वर्किंग स्पेस, तीसरा फ्लोर, प्लॉट नं. 94 द्वारका सेक्टर 13 ऑपोजिट मेट्रो

के पते पर भी लिख सकते हैं।

Net Profit/ (Loss) after Tax Date: 30.08.2022 Place: New Delhi

एतद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, 12वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार, 17 सितंबर, 2022 से

स्थानः साहिबाबाद

(कंपनी सचिव)